

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के COVID-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 मार्च, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों को सुरक्षित रखने और COVID-19 (सी.ओ.वाई.आई.डी.-19) (कोरोनावायरस) को फैलने से रोकने के लिए सावधानी उपायों पर, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और अन्य समुदाय तथा जी.टी.एच.ए. (GTHA) साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

COVID-19 से सांस संबंधी बीमारी होती है, जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसके लक्षण मामूली से तीव्र होते हैं। इनमें आम तौर पर बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण शामिल होते हैं।

जैसा कि किसी भी अन्य बीमारी में होता है, लोगों को सलाह दी जाती है कि यदि वे बीमार हैं तो घर में ही रहें और अन्य बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। कृपया नियमित रूप से हाथ धोएं। खांसते समय और छींक मारते समय मुंह को ढक लें।

सिटी, पील पब्लिक हेल्थ के निर्देश और सलाह का पालन कर रही है। हालांकि पील में मौजूदा जोखिम काफी कम है, फिर भी सिटी, हमारे समुदाय के स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

- **ब्रैम्पटन ट्रांज़िट** – बसों, फैसिलिटीज और टर्मिनल्स में सख्त सतहों और सीटों की अधिक बार सफाई की जा रही है और उन्हें रोगाणुओं से मुक्त किया जा रहा है।
- **कार्यक्रम/प्रोग्रामिंग** – सिटी के स्वामित्व वाली प्रोग्रामिंग तय किए मुताबिक ही चल रही है। बाहरी कार्यक्रम साझेदारों के, स्वास्थ्य और तंदरुस्ती संबंधी अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कार्यक्रम रद्द किए जा सकते हैं।
- **फैसिलिटीज** – फैसिलिटीज और सार्वजनिक काउंटरों की अधिक बार सफाई की जा रही है और उन्हें रोगाणुओं से मुक्त किया जा रहा है। शौचालयों में हाथ धोने के संकेत लगाए गए हैं। फैसिलिटीज के सभी प्रवेश-द्वारों पर और शौचालयों में हैंड-सैनिटाइज़िंग स्टेशन लगाए गए हैं।

निवासियों को रोज़ाना की और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में सिटी के सभी विभागों को सहयोग देने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में व्यापक कारोबार निरंतरता योजना है। ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) ने COVID-19 की तैयारी करने और इसके असर को समाप्त करने के लिए सिटी के स्टैकहोल्डर्स, ओनटैरियो फायर मार्शल (Ontario Fire Marshal) और एमरजेंसी सर्विसिज साझेदारों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक आंतरिक टीम बनाई है।

COVID-19 के बारे में और ताज़ा जानकारी के लिए, www.peelregion.ca/coronavirus पर जाएं और [@RegionofPeel](https://twitter.com/RegionofPeel) को फॉलो करें।



अधिक जानकारी:

- [पील पब्लिक हेल्थ - नोवल कोरोनावायरस \(सी.ओ.वी.आई.डी.-19\) Peel Public Health – Novel Coronavirus \(COVID-19\)](#)
- [प्रोविंस ऑफ ओनटैरिओ: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ - नोवल कोरोनावायरस \(सी.ओ.वी.आई.डी.-19\) \(Province of Ontario: Ministry of Health – Novel Coronavirus\) \(COVID-19\)](#)
- [कैनेडा सरकार – कोरोनावायरस \(सी.ओ.वी.आई.डी.-19\) अपडेट \(Government of Canada – Coronavirus \(COVID-19\) Update\)](#)
- [विश्व स्वास्थ्य संगठन – कोरोनावायरस \(सी.ओ.वी.आई.डी.-19\) अपडेट \(World Health Organization – Coronavirus \(COVID-19\) Update\)](#)

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca